

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2010

फा. क्र. 17(ई)-181-10-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के देवास, छतरपुर, गुना, शहडोल और जबलपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 24 सितम्बर 2010 से 26 सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-देवास

क्र.	अधिकारी का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाना है.
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनिल जैन, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास.	अनुभाग देवास का बरोठा क्षेत्र
2	श्री एन. एस. परिहार, महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1, देवास.	अनुभाग देवास का डबल चौकी क्षेत्र
3	श्री राजेश दीक्षित, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, देवास.	अनुभाग देवास का विजयगंज मण्डी क्षेत्र

(1)	(2)	(3)
4	श्री विजय कुमार अग्रवाल, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, देवास.	अनुभाग देवास का सिंगावदा क्षेत्र
5	श्री मनीष भारद्वाज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोनकच्छ.	अनुभाग सोनकच्छ का पिपलरावा क्षेत्र
6	श्री लोकेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, देवास.	अनुभाग देवास का सोनकच्छ क्षेत्र
7	श्री अमर येवले, अनुविभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग, देवास.	अनुभाग देवास का भौरासा क्षेत्र
8	श्री चौहान, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास परियोजना, सोनकच्छ.	अनुभाग देवास का गंधर्वपुरी क्षेत्र
9	श्री जे. एस. राणावत, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, सोनकच्छ.	अनुभाग देवास का चौबाराधीरा क्षेत्र
10	श्री जे. के. जैन, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत, टोंकखुर्द.	अनुभाग देवास का टोंककला क्षेत्र
11	श्री नरेन्द्र कुमार भावसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, टोंकखुर्द.	अनुभाग देवास का टोंकखुर्द क्षेत्र
12	श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बागली.	अनुभाग बागली का करनावद क्षेत्र
13	श्री पी. सी. परस्ते, जिला योजना अधिकारी, देवास.	अनुभाग बागली का चापडा क्षेत्र
14	श्री मुकेश चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, बागली.	अनुभाग बागली का कमलापुर क्षेत्र
15	श्री ए. के. कानूनगो, विकासखण्ड अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद.	अनुभाग कन्नौद का कांटाफोड क्षेत्र
16.	सुश्री रीना चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खातेगांव.	अनुभाग कन्नौद का हरणगांव क्षेत्र
17	श्री राजेश जोशी, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, देवास.	अनुभाग कन्नौद का नेमावर क्षेत्र

जिला—छतरपुर

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पद (3)	पदस्थापना (4)
1	श्री आर. के. गोस्वामी	प्राचार्य, पोलीटेक्निक	नौगांव
2	श्री आर. बी. वर्मा	अधीक्षक भू-अभिलेख	छतरपुर
3	श्री एस. पी. चढ़ार	सहा. अधीक्षक, भू-अभि.	छतरपुर
4	श्री पी. एल. वर्मा	सहा. अधीक्षक, भू-अभि.	छतरपुर
5	श्री आर. के. पाण्डेय	सहा. खनिज अधिकारी	छतरपुर
6	श्री एम. आई. कुरैशी	समन्वयक	डी. पी. आई. पी.
7	श्री एन. के. जैन	परियोजना अधिकारी	शहरी वि. अधिकरण
8	श्री बी. के. त्रिपाठी	जिला कार्य. अधिकारी	म. ब. वि., छतरपुर
9	श्री पी. के. रिछारिया	एस. डी. ओ.	पी. डब्ल्यू. डी.
10	श्री बी. के. श्रीवास्तव	ई. ई.	पी. एच. ई., छतरपुर
11	श्री एस. के. त्रिपाठी	डी. ई. ओ.	छतरपुर
12	श्री आर. एस. सोलंकी	उपसंचालक कृषि	छतरपुर
13	श्री एस. के. गुप्ता	ए. पी. ओ.	जिला पंचायत, छतरपुर
14	श्री एस. सी. यादव	ए. पी. ओ.	जिला पंचायत, छतरपुर
15	श्री जी. डी. साहू	टी. ओ.	छतरपुर
16	श्री एस. के. जैन	जिला रोजगार अधिकारी	छतरपुर
17	श्री उमाशंकर बाजपेई	जिला पंजीयक	छतरपुर
18	श्री विवेक सक्सेना	ई. ई.	डब्ल्यू. आर. डी.
19	श्री जी. पी. सिंह	ई. ई.	डब्ल्यू. आर. डी.
20	श्री संजीव श्रीवास्तव	ई. ई.	डब्ल्यू. आर. डी.
21	श्री राजकुमार ठाकुर	विक्रय कर अधि.	नौगांव
22	श्री आर. एस. भदौरिया	प्रौढ़ शिक्षा अधि.	छतरपुर
23	श्री रोहन लाल शुक्ला	खाद्य निरीक्षक	छतरपुर
24	श्री एस. एस. कुशवाहा	सहा. संचा. उद्यानकी	नौगांव

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-गुना

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पद एवं कार्यालय (3)	सेवा/संवर्ग का नाम (4)	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है (5)
-------------	--------------------	------------------------	---------------------------	---

1	डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत	अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना.	राज्य प्रशासनिक सेवा	सम्पूर्ण जिला गुना
---	-------------------------	---	----------------------	--------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	श्री दिलीप जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गुना.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	तहसील गुना क्षेत्र
3	श्री विजय राम वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बमोरी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	तहसील बमोरी क्षेत्र
4	श्री एस. के. श्रीवास्तव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आरोन.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	तहसील क्षेत्र आरोन
5	श्री जितेन्द्र धाकरे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राधोगढ़.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	तहसील क्षेत्र राधोगढ़
6	श्री नरेन्द्र कुमार अरण्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चाचोडा.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	तहसील क्षेत्र कुंभराज
7	श्री बालाप्रसाद पंत	अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना	भू-अभिलेख	तहसील क्षेत्र गुना
8	श्री भानू प्रकाश मिश्रा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना	भू-अभिलेख	तहसील क्षेत्र गुना
9	श्री पूरन सिंह नरवरिया	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना	भू-अभिलेख	तहसील क्षेत्र राधोगढ़
10	श्री सियाराम श्रीवास्तव	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, गुना	भू-अभिलेख	तहसील क्षेत्र चाचोडा

जिला—जबलपुर

क्र. (1)	नाम अधिकारी (2)	पद (3)	क्षेत्र जिसके लिये शक्तियां प्रदत्त की जाना है (4)
1	श्री तुलसीदास मेश्राम	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
2	श्री विनीत तिवारी	अधीक्षक, भू-परिवर्तन, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
3	श्री नंद लाल तुमराची	अधीक्षक, भू-प्रबंधन, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
4	श्री रामचरण झारिया	अधीक्षक, भू-परिवर्तन, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
5	श्री अर्जुन वर्मा	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
6	श्री श्रीराम झारिया	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
7	श्री रोशन लाल सविता	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर
8	श्री इन्द्र सिंह साण्डया	सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, जबलपुर	जबलपुर नगर निगम सीमा के अन्दर

जिला—शहडोल

- 1 श्री पी. के. श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल.